

## प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक 22.09.2022

एटीएम मशीन से फ्रॉड कर पैसा निकालने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, विभिन्न बैंको के 17 अदद एटीएम कार्ड बरामदा (थाना लीलापुर)

आज दिनांक 22.09.2022 को जनपद के थाना लीलापुर के उ0नि0 श्री रमेश कुमार यादव मय टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर देखभाल क्षेत्र / चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र के ग्राम विक्रमपुर गली के पास से 01 व्यक्ति सत्यम सिंह पुत्र शिव बहादुर सिंह को विभिन्न बैंको के 17 अदद एटीएम कार्ड, गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना लीलापुर में मु0अ0सं0 75/2022 धारा 411, 413, 419, 420 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

**पूछताछ का विवरण:-** गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मैं लोगों को झांसा देकर उनका एटीएम कार्ड/डेबिट कार्ड बदल लेते हैं व उनका कोड जानकर फर्जी तरीके से एटीएम से पैसा निकाल लेते हैं। हम ऐसे एटीएम बूथ को देखते हैं जहां गार्ड न हो व पैसा निकालने वालों की भीड़ रहती हो, फिर वहां ऐसे लोगों को निशाना बनाता हूँ जो देखने में सीधे.साधे या ग्रामीण परिवेश के लगते हैं ऐसे लोगों के बगल में खड़े होकर बहाने से उनका एटीएम कार्ड लेकर अपने पास लिए एटीएम कार्ड से बदलकर उनका पिन जानकर दूसरे एटीएम मशीन से पैसा निकाल लेते हैं।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-**

01. सत्यम पुत्र शिव बहादुर नि0 ग्राम विक्रमपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

**बरामदगी:-**

01. 17 अदद एटीएम कार्ड विभिन्न बैंको के।

**अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-**

01. मु0अ0सं0 662/2021 धारा 471, 467, 468, 420, 419 भादवि 67 आईटी एक्ट थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज।

02. मु0अ0सं0 360/2020 धारा 471, 467, 468, 420, 419, 411, 41 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

03. मु0अ0सं0 97/2022 धारा 420, 379 भादवि थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी।

**पुलिस टीम:-** उ0नि0 श्री रमेश कुमार यादव मय टीम थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

### **01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार (थाना अन्तू)-**

जनपद प्रतापगढ़ के थाना अन्तू से उ0नि0 शुभनाथ साहनी मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थानाक्षेत्र के उसके घर के पास से थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 79/2019 धारा 409 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त विकास सिंह (डाक वाहक) पुत्र स्व0 बृजेश कुमार सिंह नि0 ग्राम संग्रामपुर किला थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

### **लूट के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार (थाना कोतवाली नगर)-**

जनपद प्रतापगढ़ के थाना कोतवाली नगर से उ0नि0 राजेश कुमार शुक्ल मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थानाक्षेत्र के टेऊंगा ईट भट्टे के पास से थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 127/2021 धारा 395, 397, 412 भादवि में वांछित अभियुक्त आजाद उर्फ वकील पुत्र अफसर अली नि0 नरवा सिटी थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

### **01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार (थाना कोतवाली नगर)-**

जनपद प्रतापगढ़ के थाना कोतवाली नगर से उ0नि0 पुष्पराज मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थानाक्षेत्र के राम जानकी मन्दिर रामलीला मैदान के पास से थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 876/2022 धारा 307, 332, 353, 341, 504, 34 भादवि में वांछित अभियुक्त फुरकान पुत्र एहसानउल्ला नि0 तेलियान चौराहा थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

### **01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार (थाना महेशगंज)**

जनपद के थाना महेशगंज से उ0नि0 श्री अखण्डानन्द दुबे मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर मु0नं0 680/2017 धारा 452, 323, 504, 506 भादवि से संबंधित वारण्टी अभियुक्त फुलचन्द्र पुत्र विश्राम नि0 कन्हैयादुल्लापुर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।